



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 708]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 17, 2015/कार्तिक 26, 1937

No. 708]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 17, 2015/KARTIKA 26, 1937

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय**(उपभोक्ता मामले विभाग)****अधिसूचना**

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2015

सा.का.नि. 878(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय परीक्षण शाला, कोलकाता और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों में वैज्ञानिक सहायक भर्ती नियम, 2002 उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए अधिक्रमण किया गया है या लोप किया गया है उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग के अधीन राष्ट्रीय परीक्षण शाला कोलकाता और इसके प्रादेशिक कार्यालयों में वैज्ञानिक सहायक के पद की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय परीक्षण शाला, कोलकाता और इसके प्रादेशिक कार्यालयों में वैज्ञानिक सहायक भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतनमान वह होगा जो नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं, आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, आदेश द्वारा और वहां उनके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेडवेतन/वेतनमान	चयन पद है अथवा चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. वैज्ञानिक सहायक (इलैक्ट्रिकल)	17* (2015) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ख' (अराजपत्रित) अननुसचिवीय	वेतन बैंड -2, 9,300 रु. -34,800 और ग्रेड वेतन 4600 रु.	लागू नहीं होता	तीस वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी निर्देशों अथवा आदेशों के अनुसरण में सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिलनीय) टिप्पण: भारत के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा के निर्धारण की तारीख आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी। (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य के लद्दाख संभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-सम्भाग, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अथवा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी।

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति—भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
(7)	(8)	(9)	(10)
<p>आवश्यक:</p> <p>(i) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिकी में मास्टर डिग्री; अथवा</p> <p>(ii) सुसंगत क्षेत्र में एक वर्ष के अनुभव सहित किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से इलैक्ट्रिकल इंजीनियरी या इलैक्ट्रिकल एवं इलैक्ट्रॉनिक इंजीनियरी या इलैक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार इंजीनियरी में इंजीनियरी बेचलर या प्रौद्योगिकी बेचलर।</p> <p>वांछनीय: सरकारी अथवा अर्ध-सरकारी या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम की किसी प्रयोगशाला में उन्नयन इलैक्ट्रिकल या इलैक्ट्रॉनिक्स मापन का दो वर्ष का अनुभव</p> <p>टिप्पण 1: अन्यथा सुयोग्य पाए गए अभ्यर्थियों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकाधिकार पर अहर्ता(ओं) में छूट प्रदान की जा सकती है।</p> <p>टिप्पण 2: यदि चयन के किसी स्तर पर कर्मचारी चयन आयोग का यह मत हो कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंध रखने वाले पर्याप्त अभ्यर्थियों के पास अपेक्षित अनुभव है और उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरना संभव नहीं है तो इन समुदायों से संबंध रखने वाले अभ्यर्थियों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकाधिकार पर अनुभव से संबंधित अहर्ताओं के संबंध में छूट दी जा सकती है।</p>	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष	<p>सीधी भर्ती द्वारा।</p> <p>टिप्पण 1: पदधारियों के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण हो जाने अथवा लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के तहत एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए चले जाने के कारण उत्पन्न हुई रिक्तियों को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति पर भरा जाएगा:</p> <p>(क) (i) नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हो; अथवा</p> <p>(ii) 9300-34800 के वेतन बैंड-2 और 4200 रुपये के ग्रेड वेतन में पद पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और</p> <p>(ख) स्तम्भ (7) में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं और वांछनीय अनुभव रखते हो।</p> <p>टिप्पण 2: पोषक प्रवर्ग में विभागीय अधिकारी जिनकी सीधी प्रोन्नति होनी है, को प्रोन्नति पर नियुक्ति के लिए विचार पात्र नहीं समझा जाएगा। इसी तरह से, प्रतिनियुक्ति धारकों को प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार पात्र नहीं समझा जाएगा।</p> <p>टिप्पण 3: केंद्रीय सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में नियुक्ति से तत्काल पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 4: प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु आवेदनों के प्राप्त करने की समाप्ति तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।</p>

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन या स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन अथवा स्थानांतरण किया जाएगा।
(11)
लागू नहीं

क्या विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है यदि हां तो, इसके संघटक क्या हैं।	परिस्थितियां जिनमें संघ लोक सेवा आयोग से भर्ती करने के लिए परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति: 1. निदेशक ग्रेड- 2 अथवा वैज्ञानिक डी, राष्ट्रीय परीक्षण शाला : अध्यक्ष 2. वैज्ञानिक सी (इलैक्ट्रिकल), राष्ट्रीय परीक्षण शाला : सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय परीक्षण शाला : सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. वैज्ञानिक सहायक (गैर-विध्वंसक)	05* (2015) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ख' (अराजपत्रित) अननुसचिवीय	वेतन बैंड -2, 9,300 रु. -34,800 और ग्रेड वेतन 4600 रु.	लागू नहीं होता	तीस वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी निर्देशों अथवा आदेशों के अनुसरण में सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिलनीय) टिप्पण: भारत के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा के निर्धारण की तारीख आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी। (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य के लद्दाख संभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-संभाग, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अथवा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी।

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिकी में मास्टर डिग्री; अथवा (ii) सुसंगत क्षेत्र में एक वर्ष के अनुभव सहित किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से इलैक्ट्रिकल इंजीनियरी या मैकेनिकल इंजीनियरी या धातु विज्ञान में इंजीनियरी स्नातक या प्रौद्योगिकी बेचलर। वांछनीय: सरकारी अथवा अर्ध-सरकारी या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम की किसी गैर-विध्वंसक परीक्षण प्रयोगशाला में दो वर्ष का अनुभव टिप्पण 1: अन्यथा सुयोग्य पाए गए अभ्यर्थियों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकाधिकार पर अहर्ता(ओं) में छूट प्रदान की जा सकती है। टिप्पण 2: यदि चयन के किसी स्तर पर कर्मचारी चयन आयोग का यह राय हो कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंध रखने वाले पर्याप्त अभ्यर्थियों के पास अपेक्षित अनुभव है और उनके लिए आरक्षित रिक्रियों को भरना संभव नहीं है तो इन समुदायों से संबंध रखने वाले अभ्यर्थियों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकाधिकार पर अनुभव से संबंधित अहर्ताओं के संबंध में छूट दी जा सकती है।	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण 1: पदधारियों के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण हो जाने अथवा लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए चले जाने के कारण उत्पन्न हुई रिक्रियों को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति पर भरा जाएगा: (क) (i) नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हो; अथवा (ii) 9300-34800 के वेतन बैंड-2 और 4200 रुपये के ग्रेड वेतन में पद पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) स्तम्भ (7) में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं और वांछनीय अनुभव रखते हो। टिप्पण 2: पोषक प्रवर्ग में विभागीय अधिकारी जिनकी सीधी प्रोन्नति होनी है, को प्रोन्नति पर नियुक्ति के लिए विचार पात्र नहीं समझा जाएगा। इसी तरह से, प्रतिनियुक्ति धारकों को प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार पात्र नहीं समझा जाएगा। टिप्पण 3: केंद्रीय सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में नियुक्ति से तत्काल पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 4: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु आवेदनों के प्राप्त करने की समाप्ति तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(11)
लागू नहीं

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति: 1. निदेशक ग्रेड- 2 अथवा वैज्ञानिक डी, राष्ट्रीय परीक्षण शाला : अध्यक्ष 2. वैज्ञानिक सी (गैर-विध्वंसक), राष्ट्रीय परीक्षण शाला : सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय परीक्षण शाला : सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. वैज्ञानिक सहायक (मैकेनिकल)	12* (2015) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ख' (अराजपत्रित) अननुसचिवीय	वेतन बैंड -2, 9,300 रु. -34,800 और ग्रेड वेतन 4600 रु.	लागू नहीं होता	तीस वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी निदेशों अथवा आदेशों के अनुसरण में सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिलनीय) टिप्पण: भारत के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा के निर्धारण की तारीख आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी। (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य के लद्दाख संभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-सम्भाग, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अथवा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी।

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक: (i) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिकी में मास्टर डिग्री; अथवा (ii) सुसंगत क्षेत्र में एक वर्ष के अनुभव सहित किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरी या धातु विज्ञान में इंजीनियरी स्नातक या प्रौद्योगिकी डिग्री। वांछनीय: सरकारी अथवा अर्ध-सरकारी या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम की किसी मैकेनिकल परीक्षण प्रयोगशाला में कार्य करने की दो वर्ष का अनुभव टिप्पण 1: अन्यथा सुयोग्य पाए गए अभ्यर्थियों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकाधिकार पर अहर्ता(ओं) में छूट प्रदान की जा सकती है। टिप्पण 2: यदि चयन के किसी स्तर पर कर्मचारी चयन आयोग का यह राय हो कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंध रखने वाले पर्याप्त अभ्यर्थियों के पास अपेक्षित अनुभव है और उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरना संभव नहीं है तो इन समुदायों से संबंध रखने वाले अभ्यर्थियों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकाधिकार पर अनुभव से संबंधित अहर्ताओं के संबंध में छूट दी जा सकती है।	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण 1: पदधारियों के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण हो जाने अथवा लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए चले जाने के कारण उत्पन्न हुई रिक्तियों को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति पर भरा जाएगा: (क) (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हो; अथवा (ii) 9300-34800 के वेतन बैंड-2 और 4200 रुपये के ग्रेड वेतन में पद पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) स्तम्भ (7) में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं और वांछनीय अनुभव रखते हो। टिप्पण 2: पोषक प्रवर्ग में विभागीय अधिकारी जिनकी सीधी प्रोन्नति होनी है, को प्रोन्नति पर नियुक्ति के लिए विचार पात्र नहीं समझा जाएगा। इसी तरह से, प्रतिनियुक्ति धारकों को प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार पात्र नहीं समझा जाएगा। टिप्पण 3: केंद्रीय सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में नियुक्ति से तत्काल पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 4: प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु आवेदनों के प्राप्त करने की समाप्ति तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(11)
लागू नहीं

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति: 1. निदेशक ग्रेड- 2 अथवा वैज्ञानिक डी, राष्ट्रीय परीक्षण शाला : अध्यक्ष 2. वैज्ञानिक सी (मैकेनिकल), राष्ट्रीय परीक्षण शाला : सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय परीक्षण शाला : सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. वैज्ञानिक सहायक (भौतिकी – सिविल)	15* (2015) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ख' (अराजपत्रित) अननुसचिवीय	वेतन बैंड -2, 9,300 रु. -34,800 और ग्रेड वेतन 4600 रु.	लागू नहीं होता	तीस वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी निदेशों अथवा आदेशों के अनुसरण में सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिलनीय) टिप्पण: भारत के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा के निर्धारण की तारीख आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी। (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू -कश्मीर राज्य के लद्दाख संभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-सम्भाग, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अथवा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी।

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक: (i) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिकी अथवा रसायन शास्त्र में मास्टर डिग्री; अथवा (ii) सुसंगत क्षेत्र में एक वर्ष के अनुभव सहित किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से कैमिकल इंजीनियरी या कैमिकल प्रौद्योगिकी अथवा सिविल इंजीनियरी में इंजीनियरी स्नातक या प्रौद्योगिकी स्नातक। वांछनीय: सरकारी अथवा अर्ध-सरकारी या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम की किसी प्रयोगशाला में सिविल इंजीनियरी सामग्री परीक्षण और मूल्यांकन कार्य करने का दो वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1: अन्यथा सुयोग्य पाए गए अभ्यर्थियों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकाधिकार पर अहर्ता(ओं) में छूट प्रदान की जा सकती है। टिप्पण 2: यदि चयन के किसी स्तर पर कर्मचारी चयन आयोग का यह राय हो कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंध रखने वाले पर्याप्त अभ्यर्थियों के पास अपेक्षित अनुभव है और उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरना संभव नहीं है तो इन समुदायों से संबंध रखने वाले अभ्यर्थियों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकाधिकार पर अनुभव से संबंधित अहर्ताओं के संबंध में छूट दी जा सकती है।	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण 1: पदधारियों के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण हो जाने अथवा लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए चले जाने के कारण उत्पन्न हुई रिक्तियों को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति पर भरा जाएगा: (क) (i) नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हो; अथवा (ii) 9300-34800 के वेतन बैंड-2 और 4200 रुपये के ग्रेड वेतन में पद पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) स्तम्भ (7) में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं और वांछनीय अनुभव रखते हो। टिप्पण 2: पोषक प्रवर्ग में विभागीय अधिकारी जिनकी सीधी प्रोन्नति होनी है, को प्रोन्नति पर नियुक्ति के लिए विचार पात्र नहीं समझा जाएगा। इसी तरह से, प्रतिनियुक्ति धारकों को प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार पात्र नहीं समझा जाएगा। टिप्पण 3: केंद्रीय सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में नियुक्ति से तत्काल पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 4: प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु आवेदनों के प्राप्त करने की समाप्ति तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(11)
लागू नहीं

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति: 1. निदेशक ग्रेड- 2 अथवा वैज्ञानिक डी, राष्ट्रीय परीक्षण शाला : अध्यक्ष 2. वैज्ञानिक सी (भौतिक-सिविल) राष्ट्रीय परीक्षण शाला : सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय परीक्षण शाला : सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. वैज्ञानिक सहायक (भौतिक, रबड़, प्लास्टिक और वस्त्र)	09* (2015) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ख' (अराजपत्रित) अननुसचिवीय	वेतन बैंड -2, 9,300 -34,800 रु. और ग्रेड वेतन 4600 रु.	लागू नहीं होता	तीस वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी निर्देशों अथवा आदेशों के अनुसरण में सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिलनीय) टिप्पण: भारत के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा के निर्धारण की तारीख आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी। (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य के लद्दाख संभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-संभाग, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह अथवा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी।

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक: (i) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिकी अथवा रसायन शास्त्र में मास्टर डिग्री; अथवा (ii) सुसंगत क्षेत्र में एक वर्ष के अनुभव सहित किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से कैमिकल इंजीनियरी या वस्त्र प्रौद्योगिकी या रबड़ प्रौद्योगिकी अथवा प्लास्टिक इंजीनियरी अथवा पॉलीमर तथा रबड़ प्रौद्योगिकी अथवा कैमिकल प्रौद्योगिकी में इंजीनियरी बेचलर या प्रौद्योगिकी बेचलर। वांछनीय: सरकारी अथवा अर्ध-सरकारी या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम की वस्त्र अथवा रबड़ अथवा प्लास्टिक अथवा कागज अथवा चमड़ा और उनसे निर्मित उत्पादों का परीक्षण करने वाली किसी प्रयोगशाला में कार्य करने का दो वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1: अन्यथा सुयोग्य पाए गए अभ्यर्थियों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकाधिकार पर अहर्ता(ओं) में छूट प्रदान की जा सकती है। टिप्पण 2: यदि चयन के किसी स्तर पर कर्मचारी चयन आयोग का यह राय हो कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंध रखने वाले पर्याप्त अभ्यर्थियों के पास अपेक्षित अनुभव है और उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरना संभव नहीं है तो इन समुदायों से संबंध रखने वाले अभ्यर्थियों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकाधिकार पर अनुभव से संबंधित अहर्ताओं के संबंध में छूट दी जा सकती है।	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण 1: पदधारियों के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण हो जाने अथवा लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के तहत एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए चले जाने के कारण उत्पन्न हुई रिक्तियों को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति पर भरा जाएगा: (क) (i) नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हो; अथवा (ii) 9300-34800 के वेतन बैंड-2 और 4200 रुपये के ग्रेड वेतन में पद पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) स्तम्भ (7) में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं और वांछनीय अनुभव रखते हो। टिप्पण 2: पोषक प्रवर्ग में विभागीय अधिकारी जिनकी सीधी प्रोन्नति होनी है, को प्रोन्नति पर नियुक्ति के लिए विचार पात्र नहीं समझा जाएगा। इसी तरह से, प्रतिनियुक्ति धारकों को प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार पात्र नहीं समझा जाएगा। टिप्पण 3: केंद्रीय सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में नियुक्ति से तत्काल पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 4: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु आवेदनों के प्राप्त करने की समाप्ति तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(11)
लागू नहीं

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति: 1. निदेशक ग्रेड- 2 अथवा वैज्ञानिक डी, राष्ट्रीय परीक्षण शाला : अध्यक्ष 2. वैज्ञानिक सी (भौतिक, रबड़, प्लास्टिक और वस्त्र), राष्ट्रीय परीक्षण शाला : सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय परीक्षण शाला : सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. वैज्ञानिक सहायक (रसायन)	41* (2015) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ख' (अराजपत्रित) अननुसचिवीय	वेतन बैंड -2, 9,300 -34,800 रु. और ग्रेड वेतन 4600 रु.	लागू नहीं होता	तीस वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी निर्देशों अथवा आदेशों के अनुसरण में सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिलनीय) टिप्पण: भारत के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा के निर्धारण की तारीख आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी। (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य के लद्दाख संभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-सम्भाग, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अथवा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी।

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक: (i) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र अथवा सूक्ष्म जैविकी में मास्टर डिग्री अथवा (ii) सुसंगत क्षेत्र में एक वर्ष के अनुभव सहित किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से रसायन प्रौद्योगिकी अथवा कैमिकल इंजीनियरी में इंजीनियरी डिग्री या प्रौद्योगिकी डिग्री। वांछनीय: सरकारी अथवा अर्ध-सरकारी या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम की विश्लेषणकर्ता अथवा रसायन परीक्षण प्रयोगशाला में कार्य करने का दो वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1: अन्यथा सुयोग्य पाए गए अभ्यर्थियों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकाधिकार पर अहर्ता(ओं) में छूट प्रदान की जा सकती है। टिप्पण 2: यदि चयन के किसी स्तर पर कर्मचारी चयन आयोग का यह मत हो कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंध रखने वाले पर्याप्त अभ्यर्थियों के पास अपेक्षित अनुभव है और उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरना संभव नहीं है तो इन समुदायों से संबंध रखने वाले अभ्यर्थियों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकाधिकार पर अनुभव से संबंधित अहर्ताओं के संबंध में छूट दी जा सकती है।	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण 1: पदधारियों के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण हो जाने अथवा लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के तहत एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए चले जाने के कारण उत्पन्न हुई रिक्तियों को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति पर भरा जाएगा: (क) (i) नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हो; अथवा (ii) 9300-34800 के वेतन बैंड-2 और 4200 रुपये के ग्रेड वेतन में पद पर 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) स्तम्भ (7) में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक अहर्ताएं और वांछनीय अनुभव रखते हो। टिप्पण 2: पोषक प्रवर्ग में विभागीय अधिकारी जिनकी सीधी प्रोन्नति होनी है, को प्रोन्नति पर नियुक्ति के लिए विचार पात्र नहीं समझा जाएगा। इसी तरह से, प्रतिनियुक्ति धारकों को प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार पात्र नहीं समझा जाएगा। टिप्पण 3: केंद्रीय सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में नियुक्ति से तत्काल पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 4: प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु आवेदनों के प्राप्त करने की समाप्ति तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(11)
लागू नहीं

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय पृष्ठ समिति:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।
1. निदेशक ग्रेड- 2 अथवा वैज्ञानिक डी, राष्ट्रीय परीक्षण शाला : अध्यक्ष	
2. वैज्ञानिक सी (रसायन), राष्ट्रीय परीक्षण शाला : सदस्य	
3. प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय परीक्षण शाला : सदस्य	

[फा. सं. ए-12018/06/2014-एनटीएच]

डी. के. सोनकर, उपनिदेशक (एन.टी.एच.)

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION**(Department of Consumer Affairs)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th November, 2015

G.S.R. 878(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the National Test House, Calcutta and its Regional Offices Scientific Assistants Recruitment Rules, 2002, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Scientific Assistants in National Test House, Kolkata and its regional offices, Department of Consumer Affairs, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, namely :—

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the National Test House, Kolkata and its Regional Offices, Scientific Assistants Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale .**-The number of the said posts, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, educational qualifications, etc.** - The method of recruitment to the said post, age limit, educational qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualifications .**- No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient so to do, it may, by order and for the reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**-Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay band and grade Pay or pay scale	Whether selection post or non-selection	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.Scientific Assistant (Electrical)	17* (2015) (*Subject to variation depending on work load.)	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay band-2, Rs.9300-34800 plus grade pay of Rs. 4600	Not applicable.	Not exceeding thirty years. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: (i) Master's Degree in Physics from a recognized University ; or (ii) Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in Electrical Engineering or Electrical and Electronic Engineering or Electronics and Telecommunication Engineering from a recognized University or Institution with one year experience in the relevant field. Desirable : Two year' s experience of advanced Electrical or Electronics Measurements in a laboratory from Government or Semi Government or Public Sector Undertakings. Note 1 : Qualification(s) are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2 : The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if at any stage of selection ,the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of the candidates from these communities possessing requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Not applicable	Two years for direct recruits	By direct recruitment. Note 1: Vacancies caused by the incumbents being away on transfer on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled by appointing authority on deputation basis from officers of Central Government : (a) (i) holding analogous posts on regular basis ; or (ii) with 5 years regular service in the posts in the pay band -2 of Rs 9300-34800 plus grade pay of Rs. 4200; and (b) possessing the educational qualification and desirable experience prescribed for Direct Recruits under column (7). Note 2 : The departmental officers in the feeder

			<p>category, who are in the direct line of promotion, shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 3 : The Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 4 : The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p>
--	--	--	---

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption is to be made
(11)
Not applicable

If a Departmental Promotion committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Confirmation Committee: 1. Director Grade II or Scientist D, National Test House 2. Scientist C (Electrical), National Test House 3. Administrative Officer, National Test House	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Scientific Assistant (Non – Destructive)	05* (2015) (*Subject to variation depending on work load)	General central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay band-2, Rs. 9300-34800 plus grade pay of Rs. 4600	Not applicable	Not exceeding thirty years. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of

					Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).
--	--	--	--	--	---

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>Essential:</p> <p>(i) Master's Degree in Physics from a recognized University ; or</p> <p>(ii) Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in Electrical Engineering or Mechanical Engineering or Metallurgy from a recognized University or Institution with one year experience in the relevant field.</p> <p>Desirable: Two year' s experience in Non – Destructive testing laboratory from Government or Semi Government or Public Sector Undertakings.</p> <p>Note 1 : Qualification(s) are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2 : The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled castes and the Scheduled Tribes ,if at any stage of selection ,the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of the candidates from these communities possessing requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>	Not applicable.	Two years for direct recruits.	<p>By direct recruitment.</p> <p>Note 1: Vacancies caused by the incumbents being away on transfer on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled by appointing authority on deputation basis from officers of Central Government :</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis ; or</p> <p>(ii) with 5 years regular service in the posts in the pay band -2 of Rs. 9300-34800 plus grade pay of Rs. 4200; and</p> <p>(b) possessing the educational qualification and desirable experience prescribed for Direct Recruits under column (7).</p> <p>Note 2 : The departmental officers in the feeder category, who are in the direct line of promotion, shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 3 : The Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 4 : The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p>

(11)
Not applicable

(12)	(13)
<p>Group' B' Departmental Confirmation Committee:</p> <p>1. Director Grade II or Scientist D, National Test House</p> <p>2. Scientist C (Non – Destructive), National Test House</p> <p>3. Administrative Officer, National Test House</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Scientific Assistant (Mechanical)	12* (2015) (*Subject to variation depending on work load.)	General Central Service Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-2, Rs.9300-34800 plus grade pay of Rs. 4600	Not applicable.	<p>Not exceeding thirty years.</p> <p>(Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).</p> <p>Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p>

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>Essential:</p> <p>(i) Master's Degree in Physics from a recognized University ; or</p> <p>(ii) Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in Mechanical Engineering or Metallurgy from a recognized University or Institution with one year experience in the relevant field.</p> <p>Desirable : Two year's experience in Mechanical testing laboratory from Government or Semi Government or Public Sector Undertakings.</p> <p>Note 1 : Qualification(s) are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2 : The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of the candidates from these communities possessing requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>	Not applicable	Two years for direct recruits	<p>By direct recruitment.</p> <p>Note 1: Vacancies caused by the incumbents being away on transfer on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled by appointing authority on deputation basis from officers of Central Government :</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis ; or</p> <p>(ii) with 5 years regular service in the posts in the pay band -2 of Rs 9300-34800 plus grade pay of Rs. 4200; and</p> <p>(b) possessing the educational qualification and desirable experience prescribed for Direct Recruits under column (7).</p> <p>Note 2 : The departmental officers in the feeder category, who are in the direct line of promotion, shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 3 : The Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 4 : The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not</p>

			exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.
--	--	--	---

(11)
Not applicable

(12)	(13)
Group 'B' Departmental Confirmation Committee: 1. Director Grade II or Scientist D, National Test House -Chairman 2. Scientist C (Mechanical), National Test House -Member 3. Administrative Officer, National Test House -Member	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.Scientific Assistant (Physical - Civil)	15* (2015) (*Subject to variation depending on work load.)	General Central Service Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay band-2, Rs.9300-34800 plus grade pay of Rs. 4600	Not applicable	<p>Not exceeding thirty years.</p> <p>(Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).</p> <p>Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangri Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p>

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: (i) Master's Degree in Physics or Master's Degree in Chemistry from a recognized University ; or (ii) Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in Chemical Engineering or Chemical Technology or Degree in Civil Engineering from a recognized University or Institution with one year experience in the relevant field. Desirable : Two years' experience in the testing and evaluation of Civil Engg. Material in a laboratory from Government or Semi-Government or Public Sector Undertakings. Note 1: Qualification(s) are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes ,if at any stage of selection ,the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of the candidates from these communities possessing requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Not applicable	Two years for direct recruits	<p>By direct recruitment.</p> <p>Note 1: Vacancies caused by the incumbents being away on transfer on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled by appointing authority on deputation basis from officers of Central Government :</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis ; or (ii) with 5 years regular service in the posts in the pay band -2 of Rs. 9300-34800 plus grade pay of Rs. 4200; and</p> <p>(b) possessing the educational qualification and desirable experience prescribed for Direct Recruits under column (7).</p> <p>Note 2 : The departmental officers in the feeder category, who are in the direct line of promotion, shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p>

			<p>Note 3 : The Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 4 : The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p>
--	--	--	---

(11)
Not applicable

(12)	(13)
<p>Group' B' Departmental Confirmation Committee:</p> <p>1. Director Grade II or Scientist D, National Test House -Chairman</p> <p>2. Scientist C (Physical Civil), National Test House -Member</p> <p>3. Administrative Officer, National Test House -Member</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. Scientific Assistant (Physical, Rubber, Plastic & Textile)	09 * (2015) (*Subject to variation depending on work load.)	General Central Service Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay band-2, Rs.9300-34800 plus grade pay of Rs. 4600	Not applicable	<p>Not exceeding thirty years.</p> <p>(Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).</p> <p>Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p>

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>Essential:</p> <p>(i) Master's Degree in Physics or Master's Degree in Chemistry from a recognized University ; or</p> <p>(ii) Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in Chemical Engineering or Textile Technology or Rubber Technology or Plastic Engineering or Polymer and Rubber Technology or Chemical Technology from a recognized University or Institution with one year experience in the relevant field.</p> <p>Desirable : Two years' experience in the laboratory engaged in the testing of Textile</p>	Not applicable	Two years for direct recruits	<p>By direct recruitment.</p> <p>Note 1: Vacancies caused by the incumbents being away on transfer on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled by appointing authority on deputation basis from officers of Central Government :</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis ; or</p> <p>(ii) with 5 years regular service in the posts in the pay band -2 of Rs 9300-34800 plus grade pay of Rs. 4200 ; and</p> <p>(b) possessing the educational qualification</p>

<p>or Rubber or Plastic or Paper or Leather and their products from Government or Semi Government or Public Sector Undertakings.</p> <p>Note 1: Qualification(s) are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2 : The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled castes and the Scheduled Tribes ,if at any stage of selection ,the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of the candidates from these communities possessing requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>		<p>and desirable experience prescribed for Direct Recruits under column (7).</p> <p>Note 2 : The departmental officers in the feeder category, who are in the direct line of promotion, shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 3 : The Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 4 : The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p>
--	--	--

(11)
Not applicable

(12)	(13)
<p>Group ' B' Departmental Confirmation Committee:</p> <p>1. Director Grade II or Scientist D, National Test House -Chairman</p> <p>2. Scientist C (Physical, Rubber, Plastic and Textile), National Test House -Member</p> <p>3. Administrative Officer, National Test House -Member</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. Scientific Assistant (Chemical)	41* (2015) (*Subject to variation depending on work load.)	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay band-2, Rs.9300-34800 plus grade pay of Rs. 4600	N.A.	<p>Not exceeding thirty years.</p> <p>(Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).</p> <p>Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p>

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>Essential:</p> <p>(i) Master's Degree in Chemistry or Microbiology from a recognized University ; or</p> <p>(ii) Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in Chemical Technology or Chemical Engineering from a recognized University or Institution with one year experience in the relevant field.</p> <p>Desirable: Two years experience in an analytical or chemical testing laboratory from Government or Semi Government or Public Sector Undertakings.</p>	Not applicable	Two years for direct recruits	<p>By direct recruitment.</p> <p>Note 1: Vacancies caused by the incumbents being away on transfer on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled by appointing authority on deputation basis from officers of Central Government :</p>

<p>Note 1: Qualification(s) are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2 : The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled castes and the Scheduled Tribes ,if at any stage of selection ,the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of the candidates from these communities possessing requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>			<p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis ; or (ii) with 5 years regular service in the posts in the pay band -2 of Rs 9300-34800 plus grade pay of Rs. 4200; and</p> <p>(b) possessing the educational qualification and desirable experience prescribed for Direct Recruits under column (7).</p> <p>Note 2 : The departmental officers in the feeder category, who are in the direct line of promotion, shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 3 : The Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 4 : The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p>
---	--	--	---

(11) Not applicable

(12)	(13)
<p>Group' B' Departmental Confirmation Committee:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Director Grade II or Scientist D, National Test House 2. Scientist C (Chemical), National Test House 3. Administrative Officer, National Test House 	<p>Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.</p>

[F. No. A.12018/ 06 /2014-NTH]

D. K. SONKER, Dy. Director (NTH)